



नारीवादी नेतृत्व, आंदोलन निर्माण और अधिकार प्रशिक्षण - हिन्दी
अक्टूबर 4 - 8, 2021
ऑनलाइन, ज़ूम

आवेदन की अंतिम तिथि: 12 सितम्बर, 2021

क्रिया द्वारा आयोजित, नारीवादी नेतृत्व, आंदोलन निर्माण और अधिकार, पांच दिन तक हिंदी में चलने वाला आवासीय प्रशिक्षण है। परन्तु पिछले वर्ष से, कोरोना महामारी के चलते, इसे ऑनलाइन के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। सभी प्रतिभागियों और प्रशिक्षकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस कड़ी का यह आठवा प्रशिक्षण कार्यक्रम 4 - 8 अक्टूबर 2021 को ज़ूम कॉल के माध्यम से संचालित किया जाएगा।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम, नारीवादी नेतृत्व, पैरवी और सामाजिक परिवर्तन के लिए संगठनात्मक शक्ति व आन्दोलन बढ़ाने की रणनीतियों को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। यह प्रशिक्षण भारत की उन सभी गैर सरकारी संस्थाओं में कार्यरत महिलाओं के लिये व महिला मुद्दों से जुड़े एक्टिविस्ट के लिये है जो कि अपनी संस्था में प्रमुख के स्तर पर या मध्य-स्तर पर नेतृत्व की भूमिका में कार्य करती हैं।

प्रशिक्षण विषय

यह प्रशिक्षण विभिन्न मुद्दों को समझने, उन्हें पहचानने, उनमें परस्पर सम्बन्ध देखने और चुनौती देने के साथ प्रतिभागियों को महिला मानव अधिकार के मुद्दे के साथ जोड़ने में भी मदद करेगा। इस प्रशिक्षण में चर्चा किये जाने वाले मुद्दे हैं:

जेंडर

पितृसत्ता

सत्ता

यौनिकता

नारीवाद

नारीवादी नेतृत्व

जेंडर और राष्ट्रीय
इंटरनेट और आंदोलन निर्माण
नेटवर्किंग और सहकारिता

प्रशिक्षण समय

- 4 अक्टूबर – 02:30 pm – 6 pm (ज़ूम मीटिंग)
- 5 अक्टूबर – 02:30 pm – 5:30 pm (ज़ूम मीटिंग)
- 6 अक्टूबर – 02:30 pm – 5:30 pm (ज़ूम मीटिंग)
- 7 अक्टूबर - नो मीटिंग
- 8 अक्टूबर - 02:30 pm – 5:30 pm (ज़ूम मीटिंग)

अब तक के प्रशिक्षणों में जुड़े कुछ प्रशिक्षकों के नाम

निधि गोयल
दीप्ता भोग
पुरवा भारद्वाज
स्वर्णलता महिलकार
शालिनी सिंह

प्रतिभागी और चुनाव :

प्रतिभागी जो अपने आप को महिला मानते हैं और जेंडर , महिला अधिकार , विकास या युवा के मुद्दों पर कम से कम दो वर्ष का कार्य अनुभव रखते हैं वह इस प्रशिक्षण के लिए आवेदन भेज सकते हैं।

प्रतिभागी को ऑनलाइन /ज़ूम इस्तेमाल करना आना आवश्यक है।

प्रतिभागी ऑनलाइन आने के लिए लैपटॉप, कंप्यूटर या स्मार्ट फ़ोन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।

प्रशिक्षण के लिए कुल 20 प्रतिभागियों को उनके आवेदन के आधार पर स्वीकार किया जायेगा।

प्रशिक्षण शुल्क :

यह प्रशिक्षण निःशुल्क है | क्रिया संस्थान प्रतिभागी को Rs 500 तक का इंटरनेट रिचार्ज के मूल्य का भुगतान करेगी।

(**नोट** : क्रिया इंटरनेट पैकेज की रकम का भुगतान पक्की रसीद और प्रतिभागी द्वारा भरे गए रीमबरसमेंट फॉर्म प्राप्त करने के बाद ही पाएगी)

आवेदन :

आवेदन पत्र हमें **12 सितम्बर, 2020** तक या उससे पहले पहुँच जाने चाहिए। निर्धारित तिथि के बाद कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। केवल चुने हुए प्रतिभागियों को चुनाव की सूचना **20 - 22 सितम्बर, 2020** के बीच तक भेजी जायेगी।

(**विशेष**: चयन की प्रक्रिया, प्रतिभागियों के मिल रहे आवेदनों के साथ ही शुरू हो जायेगी। आपसे अनुरोध है की जल्द से जल्द प्रशिक्षण के लिए आवेदन पत्र भेजें।)

क्रिया : एक परिचय

वर्ष 2000 में स्थापित, क्रिया एक नारीवादी मानव अधिकार संस्था है जो दिल्ली, भारत, में स्थित है। क्रिया महिलाओं और लड़कियों को अपने मानव अधिकार की बात कहने, मांग करने और उनको प्राप्त करने के लिए सशक्त करती है। इसके अतिरिक्त, क्रिया मानव अधिकार आंदोलनों और नेटवर्क से जुड़े साथियों के साथ मिलकर, सभी के यौनिक और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों की स्वतंत्रता के लिए कार्य करती है। क्रिया सामुदायिक, राष्ट्रीय, प्रादेशिक और अन्तराष्ट्रीय मंचों के माध्यम से सकारात्मक सामाजिक बदलाव के लिए पैरवी करती है और सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करती है।

आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिये [यहाँ क्लिक करें](#)

आवेदन पत्र के पीडीएफ संस्करण के लिए, [यहां क्लिक करें](#)

निवेदन है की आवेदन वर्ड फॉर्मेट में टाइप करके ही भेजें।

(**नोट**: हमारे पास फॉर्म का अंग्रेज़ी संस्करण नहीं है)

कृपया अपने आवेदन पत्र को flmbari.hindi@creaworld.org पर ई-मेल करें।

इस प्रशिक्षण के आयोजन को सहयोग प्रदान करने के लिये, क्रिया ओक फाउंडेशन और मेडिक्स मुंडी का धन्यवाद करती है।